



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

09 ज्येष्ठ 1944 (श10)  
(सं0 पटना 311) पटना, सोमवार, 30 मई 2022

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

अधिसूचना  
30 मई 2022

सं० अ0सं0क0-04-11-हज-05/2015-102—हज समिति अधिनियम, 2002(2002 का 35) की धारा की उप-धारा(1) के अन्तर्गत गठित बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन हेतु अधिनियम की धारा 21 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने दिनांक 24.05.2022 को समिति के सदस्यों की बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्व सम्मति से सदस्य, जनाब अब्दुल हक, 21 स्कॉयर पोलो रोड, दानापुर, पटना को बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया गया।

2. हज समिति के अध्यक्ष का कार्यकाल तीन वर्षों का या उनके पदावधि, जो भी पहले हो, के लिए होगा।

3. हज समिति अधिनियम 2002 की धारा 21 (3) के अन्तर्गत विहित प्रावधान के आलोक में इसे बिहार गजट की असाधारण अंक में प्रकाशित किया जा रहा है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,  
सरकार के संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 311-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>